



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1981/माघ 15, 1902

No. 36]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1981/MAGHA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्तमंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1981

दो प्रतियों में भरा जाए

फार्म क

जामान

केन्द्रीय विशेष निक्षेप योजना

संख्या एक 4 (3)-इस्यूं एण्ड एम/ 81.—भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की कुछ रकमों का निवेश करने के लिए एक विशेष निक्षेप योजना शुरू की है। यह योजना पहली अप्रैल, 1980 से लागू होगी।

2. जमा रकमों की अवधि:—जमा रकमों की अवधि निवेश की तारीख से 10 वर्षों तक की होगी।

3. ध्याज:—जमा रकमों पर, उन्हें जमा करने की तारीख से दस प्रतिशत वार्षिक की दर से ध्याज दिया जाएगा। ध्याज वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष पहली विसम्बर को, 'केवल प्राप्तकर्ता के खाने में' अंकित बैंक द्वारा दिया जाएगा जो संबंधित संस्था के पक्ष में लिखा गया होगा।

4. संस्थाओं द्वारा जमा की जाने वाली रकमों का जमान फार्म क (दो प्रतियों में) के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में जमा कराई जाएगी।

5. जमा रकमों उनकी वापसी अवधि की निर्धारित तारीख से पहले वापस नहीं की जाएगी, सिवाय उन परिस्थितियों के, जिन्हें सरकार आवश्यक समझेगी।

6. 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमा कार्यालय प्रत्येक जमाकर्ता संस्था को एक प्रमाण-पत्र भेजेगा जिसमें वर्ष के अन्त में उनकी शेष जमा रकमों बताई गई होंगी।

अधिलेश चन्द्र निवारी, संयुक्त सचिव (बजट)

भारतीय रिजर्व बैंक के बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/नई दिल्ली स्थित कार्यालय में जमा कराई गई रकम

1. जमाकर्ता संस्था का नाम .....

2. \* रकम (शर्कों में) ..... रुपए

(शर्कों में) ..... रुपए

अदायगी ..... में भुनाए जाने वाले बैंक ..... द्वारा की गई ।

\* रकम एक लाख रुपए के गुणों में होनी चाहिए।

3. लेखा शीर्ष 812 विशेष निक्षेप तथा खाते —  
जीवन बीमा निगम/ साधारण  
बीमा निगम / भारतीय यूनिट  
ट्रस्ट की जमा रकमों

4. जमाकर्ता संस्था के प्राधिकृत  
अधिकारी के हस्ताक्षर

( जमा कार्यालय द्वारा भरा जाना चाहिए )

बैंक द्वारा ..... रुपए (

( शर्कों में )

..... रुपए) प्राप्त हुए

कुले भारतीय रिजर्व बैंक

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1981

No. F. 4(3)-W & M/81 :—The Government of India have introduced a Special Deposit Scheme for investment of a part of funds of the Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India and its subsidiaries and Unit Trust of India. The Scheme shall come into force from 1st April, 1980.

2. Period of deposit—The deposits will be for a period of ten years from the date of investment.

3. Interest—The deposits will carry interest at the rate of ten percent per annum from the date of deposit. Interest will be paid annually on 1st December each year by means of a cheque or payment order marked "Account payee Only" drawn in favour of the institution concerned.

4. Deposits will be tendered by the institutions at offices of the Reserve Bank of India at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi, together with challan in form A, in duplicate.

5. Refund of deposits before their repayment becomes due will not be allowed except in the circumstances considered necessary by the Government.

6. At the end of each financial year ending 31st March, the deposit office will furnish to each of the depositor institution a certificate of balances at its credit as at the end of the year.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.  
(Budget).

IN DUPLICATE

FORM A

CHALLAN

CENTRAL

## SPECIAL DEPOSIT SCHEME

Deposit made with the Reserve Bank  
of India.....

At Bombay/Calcutta/Madras/ New Delhi.

1. Name of the depositor  
institution

2. Amount ;

(in figures) Rs.....

(in words) Rs.....

Paid by cheque.....drawn on.....

\*to be in multiples of rupees one lakh.....

3. Head of Account : 812—Special Deposits and Accounts—  
Deposits of LIC/GIC/UTI

4. Signature of authorised  
official of the depositor  
institution

(To be filled in by Deposit office)

Received payment : Rupees.....  
(in words)

by cheque .....

for RESERVE BANK OF INDIA.